

विशेष रिपोर्ट

# काँटन

अक्टूबर

पिछले महीने के दौरान, एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हुई और कताई मिलों और विदेशी फर्मों द्वारा खरीददारी के कारण दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। कपास की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि अधिकांश कताई मिलों की क्षमता में 80% वृद्धि देखी गई। चूंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लगभग एक महीने पहले कपास की नीलामी शुरू की थी और यह 170 किलो के लगभग 50 लाख बेल को बेचने में सफल रहा है और कीमतें 36,500 रुपये से बढ़कर 38000 किलोग्राम प्रति कैंडी हो गई हैं। इससे घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम के पूर्वानुमान के बाद फसल की स्थिति बिगड़ने की आशंका से आईसीडी में कॉटन वायदा की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर 66.45 सेंट पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की साप्ताहिक फसल प्रगति रिपोर्ट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 44% फसल अच्छी / उत्कृष्ट स्थिति में है जो पिछले सप्ताह के 46% और पिछले साल के 48% से कम है।

### आईसीडी में कॉटन वायदा का चार्ट



### एमसीएक्स में कॉटन वायदा का चार्ट



## घरेलू फंडामेंटल

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2020-21 के फसल वर्ष (जुलाई-जून) के चालू खरीफ सीजन में अब तक कपास की बुआई पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.24 प्रतिशत बढ़कर 128.95 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- यूएसडीए के अनुसार, बाजार वर्ष 2020/21 में भारत का कपास उत्पादन 12.9 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में 28.9 मिलियन बेल (1 बेल 480 पौंड का) होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई की गति 3 प्रतिशत अधिक है, और कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर, समय से पहले बुआई पूरी हो गई थी। जबकि सरकारी एजेंसियां तेजी से स्टॉक बेचने में सफल रही हैं, बाजार में बिना बिके स्टॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय है, और मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।
- गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में अगस्त के दौरान पहले ही अच्छी वर्षा हो चुकी है। आईएमडी के कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग के अनुसार, किसानों को सलाह दी गई है कि वे खड़ी फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।
- वर्तमान में, कारोबारी फाइबर फसल के विकास के चरण को बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि मौजूदा बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति कपास में विल्ट का संक्रमण होता है। प्रचलित मौसम कपास में सफेद मक्खी की आबादी के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इसके अलावा, तेज धूप के बाद होने वाली भारी बारिश के परिणामस्वरूप कपास में लकवा मार सकता है।
- जुलाई और अगस्त के दौरान, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सफल ई-नीलामी का संचालन किया, और लगभग 4.3 मिलियन बेल (1 बेल 480 पौंड का) (5.5 मिलियन बेल 170 किलोग्राम का / 935,000 मीट्रिक टन) की बिक्री की। व्यापार स्रोतों से संकेत मिलता है कि लगभग 80 प्रतिशत बिक्री मिलों को हुई है। सितंबर के अंत तक अतिरिक्त 1.56 - 1.95 मिलियन बेल (480 पौंड का) बेचे जाने की उम्मीद है।
- मांग पक्ष पर, बाजार वर्ष 2020/21 में कपास की खपत 23 मिलियन बेल (480 पौंड का) (29.45 मिलियन बेल, 170 किलोग्राम का) का अनुमान है।
- घरेलू खुदरा क्षेत्र का आउटलुक कमजोर बना हुआ है क्योंकि मिलों को प्रवासी श्रमिकों की कमी और कारखाने के परिसर में बढ़ते कोविड -19 मामले का सामना करना पड़ रहा है।
- निर्यात के मोर्चे पर, यूएसडीए का अनुमान है कि बाजार वर्ष 2020/21 में कपास का निर्यात 4 मिलियन बेल (480 पौंड का) (4.48 मिलियन (170 किग्रा का)) होने का अनुमान है जो कि यूएसडीए के आधिकारिक अनुमान से लगभग 900,000 बेल कम है। निर्यात योग्य आपूर्ति और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों से कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है।

## घरेलू बाजार में भंडार

- कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार बाजार वर्ष 2019/20 में 25 अगस्त, 2020 तक कपास की आवक 26.5 मिलियन बेल (1 बेल 480 पौंड का) हुई है। कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) के उत्पादन अनुमान के आधार पर, 94 प्रतिशत फसल बाजार में आ गई है। स्थानीय उद्योग का अनुमान है कि कपास की आवक 5-6 प्रतिशत अधिक होगी। (स्रोत: यूएसडीए)

### अगस्त 2020 में कपास की राज्यवार थोक कीमतें (रु/क्विंटल में)

#### हाजिर बाजार में आवक

Prices in Rs/Quintal

राज्य	अगस्त 2020 में	जुलाई 2020 में	अगस्त 2019 में	जुलाई 2020 की तुलना में % बदलाव	अगस्त 2019 की तुलना में % बदलाव
गुजरात	4267	4124	5876	3.46	-27.38
कर्नाटक	4811	4608	5457	4.40	-11.85
महाराष्ट्र	5247	5249	5850	-0.04	-10.31
पांडीचेरी	4306	4002	4400	7.61	-2.14
तमिलनाडु	4727	4586	5612	3.09	-15.77
औसत	4672	4514	5439		

स्रोत: एगमार्क


## अंतरराष्ट्रीय फंडामेंटल

- यूएसडीए के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 में कपास का निर्यात 5 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान है, जो 2020 की तुलना में 400 मिलियन डॉलर कम है। कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी से मांग में कमी और चीन के बाहर रिकॉर्ड स्टॉक की वजह से इकाई मूल्य भी कम हैं।
- कोविड-19 वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक कपास बाजार के लिए अनिश्चितता का एक केंद्रीय स्रोत बना हुआ है। अमेरिका में प्रकोप के फिर से बढ़ने, कई अन्य देशों में दैनिक मामलों की दरों में वृद्धि से पता चलता है कि कैसे दुनिया को अभी भी महामारी को पूर्ण नियंत्रण में लाना है।


## आउटलुक

- आने वाले दिनों में, कॉटन वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 17800-18200 रू के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कपास की कीमतों में कमी आई है और कताई मिलों की मांग है कि धीरे-धीरे तालाबंदी में ढील दी जाए। एक महीने पहले सुस्त दिख रही कुल मांग में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन मानदंडों में ढील और प्रवासी श्रमिकों की वापसी से मिलों के संचालन को फिर से शुरू करने में मदद मिल रही है। मिलों को कपास की जरूरत है और उन्होंने खरीददारी करना शुरू कर दिया है। अगस्त के महीने में, आमतौर पर कम कीमतों में मिलों को जुलाई-सितंबर के दौरान अपना भंडार बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आईसीई में कॉटन वायदा (दिसंबर) की कीमतों के 65.5-68.5 सेंट के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।
- हाल के समय में, यू.एस.-चीन के बीच गतिरोध ने कारोबारियों को उधेड़बुन में और सतर्क रखा है। आगे यूएसडीए का अनुमान है कि कोविड-19 प्रभावों से मांग के उबरने की उम्मीद है। चीन के आंतरिक क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट जारी रहने की संभावना है, जबकि शिनजियांग में उत्पादन क्षेत्र का विस्तार सीमित है और यूएसडीए को कुल उत्पादन में मामूली रूप से बढ़ोतरी का अनुमान है। यदि चीन की खपत में वृद्धि अनुमानित वैश्विक दर पर या उसके लगभग बढ़ती है, तो आयात की मांग में अभी भी लगातार वृद्धि होगी, भले ही वह कुछ हद तक कम हो। दुनिया कोरोनावायरस वायरस से धीरे-धीरे उबरने लगी है और कुछ स्टोर हफ्तों तक बंद रहने के बाद फिर से खुलने लगे हैं।

### एमसीएक्स में कॉटन वायदा का फॉरवर्ड कर्व



### आईसीई में कॉटन वायदा का फॉरवर्ड कर्व



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



Moneywise. Be wise.

**Corporate Office:**

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**

Lotus Corporate Park, A Wing 401/402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्कोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्कोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (भेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिटेड नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एग्रेसिविटी सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्कोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्कोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रेसिविटी द्वारा सिन्कोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में किसी कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सफ्टवेयर एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाए गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इन्का अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।